

ಮಾನವಸಂಪನ್ಮೂಲವಿಭಾಗ/मानवसंसाधनअन्भाग/HUMAN RESOURCES SECTION

ಭಾರತೀಯವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥೆ/भारतीयविज्ञानसंस्थान/INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE

ಬೆಂಗಳೂರು/बेंगलूर/BANGALORE - 560012

ದೂರವಾಣಿ/दूरभाष/TELEPHONE: 2293 2232

थ-ಮೇಲ್/E-mail/ईमेल : recruitment.nt@iisc.ac.in

विज्ञापन सं.र.(मा.सं.)/भर्ती-5/2022 (सीधी भर्ती)

1. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु में सीधी भर्ती के माध्यम से निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

पदनाम	रिक्तियों की संख्या						आवश्यक योग्यता	ग्रुप	आयु- सीमा	पे मैट्रिक्स लेवल (सातवें वेतन
	सा.	अ.जा.	अ.जन.	अन्य. पी.	आ.क.व.	कुल				आयोग के अनुसार)
प्रशासनिक सहायक	31	12	05	20	08	76*	न्यूनतम 50% अंकों से साथ स्नातक	С	26 বৰ্ष**	लेवल – 03 (₹21700 - 69100)

* पीडब्ल्यूडी के लिए 04 पद आरक्षित हैं - 02 पद प्रत्येक श्रेणी - (अंधापन और कम दृष्टि) और श्रेणी IV विकलांगता (ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी और एकाधिक विकलांगता) के लिए आरक्षित हैं।

**आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार।

सामान्य निर्देश

1. आवेदकों के लिए निर्देश

- (a) उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करने से पहले विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक न्यूनतम योग्यता, आयु, पात्रता, अनुभव मानदंड आदि को ध्यान से पढ़ लें। चूँिक, ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दिए गए ऑकड़ों के आधार पर आवेदन की जांच की जाएगी, अतः उम्मीदवार पद के लिए आवेदन से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।
- (b) पद के लिए चयन पूरी तरह से रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा (100% वेटेज) पर आधारित होगा। यदि परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग सत्रों में प्राप्त किए गए अंकों को मानक मानदंडों के अनुसार सामान्यीकृत किया जा सकता है।
- (c) ऑनलाइन सूचना दाखिल करते समय आवेदकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए । एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में बदला/पुनर्प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, एक बार ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद उम्मीदवार द्वारा दर्ज किए गए किसी भी आंकड़ा/विवरण में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा | । इसलिए, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया सभी ऑकड़ा/विवरण तैयार रखें ।
- (d) 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में दिए गए वेतन के अतिरिक्त, पद संबंधित वेतनमान में संस्थान के नियमानुसार स्वीकार्य सामान्य भत्ते देय हैं।
- (e) दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) को, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार रोजगार के उद्देश्य के लिए, सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ, दिव्यांगता / चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (f) रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित मानक के अनुसार होंगे।
- (g) योग्यता और अनुभव की पूर्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामान्य रूप से मानकों का पालन करते हुए, भर्ती/चयन के चरण (चरणों) में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उम्मीदवार को **रोजगारोन्मुख** योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि कहा गया है, संस्थान मानक तय करने के लिए स्वतंत्र है और रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित मानक से ऊपर के योग्य उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा

- । इसके अलावा, संस्थान बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में से किसी भी पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (h) एक बार किसी उम्मीदवार द्वारा आरक्षित श्रेणी चुनने के पश्चात आरक्षित श्रेणि में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (i) यदि कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है तो किसी उम्मीदवार को, उसकी श्रेणी बावजूद, सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए भी विचार किया जा सकता है। यद्यपि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित रिक्तियों के लिए केवल उस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति को विचार में लाया जाएगा
 ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक भारत सरकार द्वारा जारी आयु में छूट संबंधी नीति में किसी भी संशोधन को विचार में लाया जाएगा ।
- (k) उम्मीदवार की आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, दिए गए आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (1) आयु में छूट, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार होगी।
- (m) संस्थान में वर्तमान में कार्यरत अस्थाई/परियोजना कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने संस्थान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवा की सीमा तक आयु में एक बार की छूट प्रदान की जाती है।
- (n) 01.04.2022 को या उसके बाद जारी ओबीसी (गैर -क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र केवल ओबीसी (गैर -क्रीमी लेयर) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए मान्य होगा। प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार गैर-क्रीमी लेयर से संबंधित है और उम्मीदवार की जाति ओबीसी की राज्यवार केंद्रीय सूची में होनी चाहिए।
- (o) 01.04.2022 को या उसके बाद जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ.डब्लू एस.) प्रमाण पत्र केवल इ.डब्लू एस. श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए मान्य होगा | सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए इ.डब्लू एस. प्रमाण पत्र केवल इ.डब्लू एस. से संबंधित उम्मीदवार के दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। पर्याप्त प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (p) पी.डब्लू.डी. श्रेणी के लिए छूट और रियायतें केंद्र सरकार के वर्तमान आदेशानुसार होंगी।
- (q) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार रोजगार के उद्देश्य के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ दिव्यांग/चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा । 40% से कम दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति इस श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। दिव्यांगता 40% से कम होने पर प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (r) सभी पदों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है।
- (s) यदि स्क्रीनिंग, भर्ती और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर या नियुक्ति के बाद भी, यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने गलत या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द/समाप्त कर दी जाएगी। संस्थान अपूर्ण/गलत जानकारी के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। बाद में, इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. | आवेदन जमा करना

- (a) उम्मीदवार को दिनांक 17.12.2022 से 06.01.2023 तक रात 11:55 बजे तक केवल ऑनलाइन आवेदन करें।
- (b) ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए, कृपया देखें:

 https://cdn.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/956/80596/Registration.html
- (c) गैर-शैक्षणिक पदों के ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन की कोई हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाती है। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।
- (d) सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को वर्तमान नियोक्ता से एनओसी प्राप्त करना चाहिए और इसे ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए। हालांकि, एनओसी के बिना भी आवेदन पर विचार किया जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र अपलोड करे कि वह दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी जमा करेगा।
- (e) अधूरे आवेदनों को सींधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
- (g) उम्मीदवार की योग्यता और योग्यता परीक्षा से संबंधित सभी मामलों में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
- (h) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, संस्थान के नियमानुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के बाद ही होगी ।

- (i) आवेदन पत्र के साथ, आवश्यक योग्यता (प्राप्त अंक), अनुभव आदि के समर्थन में अंक-पत्र और उपाधि प्रमाण-पत्र (कक्षा 10 वीं से शुरू), आदि अपलोड करना और जमा करना, अनिवार्य हैं। इन अनुलग्नकों के बिना आवेदनों को सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (j) जिन उम्मीदवारों को स्नातक की डिग्री के संबंध में सीजीपीए/जीपीए प्रणाली के तहत ग्रेडेशन से सम्मानित किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीजीपीए/जीपीए को उचित प्रतिशत में बदलने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त अंकों का सही प्रतिशत जमा करें। दस्तावेज़ सत्यापन के समय रूपांतरण सूत्र के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने का दायित्व उम्मीदवार पर है।
- (k) संस्थान नियुक्ति के समय या कार्यकाल के दौरान, किसी भी समय, किसी उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए पूर्ववृत्त या दस्तावेजों को सत्यापित कर सकता है | यदि सत्यापन के क्रम में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली हैं या उम्मीदवार के पास संदिग्ध/अस्वीकार्य पूर्ववृत्त/पृष्ठभूमि है और उसने उक्त जानकारी को छुपाया है, तो उसकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा | इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों/कर्मचारियों विरुद्ध विधिक रूप से उचित वैधानिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है ।
- (I) परिणाम प्रकाशित करने से पहले आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण को विधिवत सत्यापित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपने द्वारा भरे गए विवरण के लिए प्रामाणिक प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- (m) इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धि-पत्र / परिशिष्ट केवल संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित ही किया जाएगा।
- (n) 01.01.2004 को या उसके बाद संस्थान की सेवा में नियुक्त सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।
- (o) सेवा की अवधि के दौरान, प्रत्येक कर्मचारी योजना, विनियमों और उपनियमों (SRB), प्रशासनिक नियमावली, अन्य वैधानिक दस्तावेजों, केन्द्रीय नागरिक सेवा (आचरण) नियमावली और केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, आदि का पालन करेगा।
- (p) निर्धारित योग्यताएँ न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ हैं | किसी उम्मीदवार द्वारा इन योग्यताओं के अर्जन मात्र से वह रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकारी नहीं होगा ।
- (q) उम्मीदवारों को अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, अग्रिम रूप से आवेदन जमा करना चाहिए।
- (r) लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलावा पत्र केवल पात्र उम्मीदवारों को भेजे जाएंगे और इसकी सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत मेल को बार-बार जाँचना आवश्यकता है। रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा के लिए अपात्र उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।
- (s) संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान किसी भी प्रशासनिक कारण से, किसी भी चरण में विज्ञापन/भर्ती को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (t) उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर परीक्षा में शामिल होना होगा।
- (u) संस्थान उम्मीदवार को उसकी पसंद का केंद्र आवंटित करने के सभी प्रयास करेगा । इसलिए, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध नामित केंद्रों की सूची में से तीन केंद्रों का चयन करना होगा। यद्यपि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संस्थान किसी समय परिस्थितिजन्य कारणों को संबोधित करने के लिए अपने विवेकानुसार उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संस्थान किसी भी समय निर्दिष्ट केंद्रों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र / स्थान के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

3. देय शुल्क

- (a) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर और महिला श्रेणीयों से संबंधित उम्मीदवारों को ₹50/- प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। अन्य उम्मीदवारों को ₹450/- रुपये आवेदन शुल्क और ₹50/- प्रसंस्करण शुल्क देना होगा।
- (b) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा।

- (a) उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद भर्ती संबंधी नविन सूचना के लिए नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट और पोर्टल पर जाना चाहिए।
- (b) इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि अधिसूचना और अन्य विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट: https://iisc.ac.in/careers/regular-positions/ देखें।
- (c) रोजगारोन्मुख योग्यता परीक्षा के संबंध में जानकारी संस्थान की वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार समय पर वेबसाइट देखने/पहुंचने में विफल रहता है तो इसके लिए संस्थान किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

- (d) उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, संस्थान अपनी वेबसाइट/होमपेज पर, परीक्षा के संचालन और परिणाम के संबंध में सूचना अपलोड करेगा । उम्मीदवार अपने स्वयं के हित में अपने आवेदन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं।
 - https://cdn.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/956/80596/Registration.html https://cdn.digialm.com:443//EForms/configuredHtml/956/80596/login.html
- (e) परीक्षा का संचालन और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (f) वर्तमान चयनित/सूचीबद्ध उम्मीदवारों को केवल ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस संबंध में अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।

दिनांकः 17.12.2022 कुलसचिव